

स्थापित -1982

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 (बिहार)

पंजीयन -97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं०-2,
थाना-बाइपास, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो०- 7543042345

महासचिव

श्री राघवेन्द्र कुमार

बी०आर०ए०बी०यू०, मुजफ्फरपुर

मो०- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मो०- 9835447023

डॉ० सरोज कुमार सिंह

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

मो०- 9939745814

कोषाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

डॉ० कुं० सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

मो०- 9931062586

संगठन मंत्री

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र

गामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय

दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

लकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर

मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

ए.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

मो०- 9431413716

श्री रंजन कुमार

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9472003662

श्री अमरनाथ पाठक

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

मो०- 8002497555

प्रवक्ता

श्री गौरव

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर

मो०- 9123469271

पत्रांक..... एम०एल०(जी०)-५५

०८

दिनांक..... 08/08/2019...

सेवा में,

माननीय प्रधानसचिव महोदय,
शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) बिहार सरकार,
पटना।

विषय : लम्बित मांगों के क्रियान्वयन के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आग्रहपूर्वक सूचित करना है कि महासंघ द्वारा अपनी लम्बित मांगों के पूर्ति के संदर्भ में विचारार्थ कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं इस संदर्भ में माननीय निर्देशिका महोदय जी के वार्ता भी हुआ किन्तु फलाफल आज तक शून्य है। माननीय न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मात्र एक समूह 'घ' का ही संशोधन पत्र पत्रांक 15/डी.-01.01.2009 अंश 11-79 दिनांक 09.01.2019 द्वारा निर्गत किया गया जबकि इसी समान वित्त विभाग का पत्र समूह 'ग' के ज्ञापांक 3ए-2 वे०पु०-18/2009-275 वि० पटना दिनांक 08.01.2015 जो कि शिक्षा विभाग संलेख ज्ञापांक 15/डी. 03/2011-1123 दिनांक 05.08.06/2013 एवं मंत्री परिषद् की बैठक की कार्यवाही दिनांक 23 जूलाई, 2013 शिक्षा विभाग क्र० सं० 28 में स्वीकृत की संशोधित पत्र का अधिसूचना आज तक निर्गत नहीं हो पाया है जिस आधार पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों को क्रमशः प्रशाखा पदाधिकारियों सहायकों का स्वीकृत ग्रेड पे रू० 4200/- रूपांतरित करते हुए संचय रू० 4800/- एवं रू० 4600/- में वेतन निर्धारण की सत्यापन वेतन निर्धारण कोषांग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए आग्रह है संशोधित अधिसूचना निर्गत किया जाये। इसके अलावा निम्न महत्वपूर्ण मांग प्रस्तुत है:-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अपील संख्या 516/2013 क्या इसके अद्भूत अवमाननावाद संख्या 263/2013 में न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पत्रांक 1163 दिनांक 20.06.2014 द्वारा सभी दिनचर्या लिपिकों को धारित पदनाम पर वेतनमान 4000-6000 स्वीकृत किया गया के अनुसार 18.01.2013 तक दिनचर्या लिपिक पद नाम धारित कर्मियों को उक्त वेतनमान में भुगतान सुनिश्चित करते हुए षष्ठम् एवं सप्तम का लाभ दिया जाये।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित न्यायादेश विभिन्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश महामहिम

08/08/2019


कुलाधिपति एवं राज्य सरकारी के विभिन्न पत्रों के आलोक में विश्वविद्यालय कर्मियों को सचिवालय कर्मियों के सदृश्य वेतनमान के साथ एस०ए०पी०/एम०एस०पी० की लाभ पंचम एवं षष्ठम् की विसंगति को दूर करते हुए बकाये स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जाये तथा सप्तम वेतनमान में भुगतान सुनिश्चित करते हुए सप्तम वेतनमान के अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाये।

3. विश्वविद्यालय शिक्षकों की भांति विश्वविद्यालय कर्मियों का भी सेवानिवृत्त की आयु सीमा 62 से 65 वर्ष किया जाये एवम् आजतक राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना का परिनियम संसूचित नहीं किया जाय तथा कर्मियों पर व्यय राशि का आवंटन नई पेंशन योजना मद में नहीं किया गया है। इसलिए आज तक कार्यरत सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाय।
4. राज्य सरकार के कर्मियों के भांति विश्वविद्यालय कर्मियों को आवास/कार/स्वास्थ्य बीमा के प्रावधान के साथ अग्रिम ऋण राशि 10,00,000/- का प्रावधान करते हुए लागू किया जाये।
5. बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना हेतु सचिवालय अथवा अगल-बगल में विश्वविद्यालय/बस पड़ाव के पास भूमि/भवन आवंटित किया जाये।

अतएवं आग्रह है कि उपयुक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए लागू किया जाये, अधिसूचना निर्गत करने की कृपा की जाये एवम् सकारात्मक वार्ता हेतु महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल को बुलाने का भी कष्ट किया जाये ताकि सभी पहलूओं से आपको अवगत कराई जा सकें।

सादर समर्पित!

भवदीय


08/08/2019
महासचिव